



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 49] नई दिल्ली, दिसम्बर 20-दिसम्बर 26, 2009, शनिवार/अग्रहायण 29-पौष 5, 1931
No. 49] NEW DELHI, DECEMBER 20-DECEMBER 26, 2009, SATURDAY/AGRAHAYANA 29-PAUSA 5, 1931

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2009

सा.का.नि. 177.—लोक सभा सचिवालय (भर्ती और सेवा शर्तों) नियम, 1955 के नियम 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्यक्ष एतद्वारा लोक सभा सचिवालय (आचरण) नियम, 1955 में और संशोधन करने हेतु, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- (i) इन नियमों का नाम लोक सभा सचिवालय (आचरण) संशोधन नियम, 2009 है।
- (ii) ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
- लोक सभा सचिवालय (आचरण) नियम, 1955 में विद्यमान नियम "3-क" और नियम "4" के बीच निम्नलिखित नियम 3-ख अंतःस्थापित किया जाएगा:

"नियम 3-ख-कामकाजी महिलाओं के यौन-उत्पीड़न का प्रतिषेध

- कोई अधिकारी किसी महिला के कार्य-स्थल पर उसके यौन-उत्पीड़न के किसी कृत्य में संलिप्त नहीं होगा।
- प्रत्येक अधिकारी जो कार्य-स्थल का प्रभारी है, उस कार्य-स्थल पर किसी भी महिला का यौन-उत्पीड़न रोकने के लिए समुचित कदम उठाएगा।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनार्थ, "यौन-उत्पीड़न" में प्रत्यक्षतः अथवा अन्यथा ऐसे अव्यक्ति यौन प्रवृत्त व्यवहार शामिल हैं, यथा—

- शारीरिक संस्पर्श और ऐसी कुचेष्टा;
- यौन संपर्क बनाने की मांग अथवा अनुरोध;
- अश्लील फब्कियां;
- किसी प्रकार के अश्लील चित्र, साहित्य और फिल्में दिखाना; अथवा

(ड) यौन प्रकृति का कोई भी अन्य अवर्णित शारीरिक, शाब्दिक अथवा मूक आचरण।”

[फा. सं. 7/53/2009-जी.एन. 6340/ए.एन.आई. (डीएम एंड सीसी)]
पी. डी. टी. आचारी, महासचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 9th November, 2009

G.S.R. 177.—In exercise of the powers conferred by Rule 19 of the Lok Sabha Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1955, the Speaker hereby makes the following Rules further to amend the Lok Sabha Secretariat (Conduct) Rules, 1955, namely:—

1. (i) These Rules may be called the Lok Sabha Secretariat (Conduct) Amendment Rules, 2009.
- (ii) They shall come into force with immediate effect.
2. In the Lok Sabha Secretariat (Conduct) Rules, 1955, the following Rule ‘3-B’ shall be inserted between the existing Rule ‘3-A’ and Rule ‘4’:
“Rule 3-B—Prohibition of Sexual Harassment of Working Women
- (i) No officer shall indulge in any act of sexual harassment of any woman at her work place.
- (ii) Every officer who is incharge of a work place shall take appropriate steps to prevent sexual harassment to any woman at such work place.

Explanation—For the purpose of this Rule, “sexual harassment” includes such unwelcome sexually determined behaviour, whether directly or otherwise, as—

- (a) physical contact and advances;
- (b) a demand or request for sexual favours;
- (c) sexually coloured remarks;
- (d) showing any pornography; or
- (e) any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of a sexual nature.”

[F. No. 7/53/2009/G.N.-6340/A.N.I. (DM & CC)]

P. D. T. ACHARY, Secy. General

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2009

सा.का.नि. 178.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार प्रशासनिक अधिकारी (समूह “क” पद) भर्ती नियम, 2008 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार प्रशासनिक अधिकारी (समूह “क” पद) भर्ती संशोधन नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार प्रशासनिक अधिकारी (समूह “क” पद) भर्ती नियम, 2008 की अनुसूची में:—

(i) स्तम्भ 4 में, शीर्षक और प्रविष्टि संबंधी स्तंभ के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा; अर्थात्:—

“वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान

(4)

वेतन बैंड-3 15600—39100 रु. (ग्रेड वेतन 5400 रु.)।”;

(ii) स्तम्भ (11) में, शीर्षक और प्रविष्टि संबंधी स्तंभ में, “पद” शब्द के स्थान पर, “रिक्तियाँ” शब्द रखा जाएगा।

[फा. सं. 12-18/2005-प्रशा. III(पी)]

अनीता तिपरा, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. सं. 719(अ), तारीख 23 सितम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

New Delhi, the 22nd December, 2009

G.S.R. 178.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Sheep Breeding Farm, Hisar Administrative Officer (Group ‘A’ post) Recruitment Rules, 2008, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Sheep Breeding Farm, Hisar Administrative Officer (Group ‘A’ post) Recruitment (Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Sheep Breeding Farm, Hisar Administrative Officer (Group ‘A’ post) Recruitment Rules, 2008, in the Schedule,—

(i) in column (4), for the column heading and the entry, the following shall be substituted namely:—

“Pay Band and Grade Pay or Pay Scale

(4)

PB-3 Rs. 15600—39100 [Grade Pay Rs. 5400].”;

(ii) in column (11), in the column heading for the words “the post”, the word “vacancies” shall be substituted.

[F. No. 12-18/2005-Admn. III(P)]

ANITA TIPRA, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide No. G.S.R. 719(E), dated the 23rd September, 2008.

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2009

सा.का.नि. 179.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पशुपालन डेयरी और मात्स्य पालन विभाग के अधीन पशु करतीन और प्रमाणन सेवा में तकनीकी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशु करतीन और प्रमाणन सेवा समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
तकनीकी	10* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 1 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई, अंतिम तारीख होगी।

(7)

(न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
--	--	-------------------------------

(8)

(9)

(10)

आवश्यक : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी. एस. सी. (जीव विज्ञान/सूक्ष्म जीव विज्ञान)

लागू नहीं होता

दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिससे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा

(11)

(12)

सीधी भर्ती द्वारा

लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)

लागू नहीं होता।

1. निदेशक/उप सचिव (संबंधित) —अध्यक्ष
2. क्षेत्रीय अधिकारी/करतीन अधिकारी (संबंधित) —सदस्य
3. सहायक आयुक्त (संबंधित) —सदस्य

[फा. सं. 46-5/2009-प्रशा. III]

आर. एस. जयाल, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd December, 2009

G.S.R. 179.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment in the post of Technician in the Animal Quarantine and Certification Services under the Department of Animal Husbandry, Dairying, and Fisheries, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Animal Quarantine and Certification Services (Technician) Group 'C' post, Recruitment Rules, 2009.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of posts, their classification and the scale of pay attached to them shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification, etc.—The method of recruitment to the posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other Special Categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Technician	10* (2009) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-I Rs. 5200-20200 with Grade Pay Rs. 2400	Not applicable	Not applicable	Between 18 to 27 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those from Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh,

4612 GI/09-2

(7)		
Nagaland, Mizoram, Manipur, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul & Spiti district and pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).		
Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any
(8)	(9)	(10)
Essential : (i) B.Sc. (Biology/Microbiology) from a recognized University	Not applicable	Two years
Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	
(11)	(12)	
By (Direct) Recruitment	Not applicable	
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	
(13)	(14)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):	Not applicable.	
1. Director/Deputy Secretary (concerned)	—Chairman	
2. Regional Officer/Quarantine Officer (concerned)	—Member	
3. Assistant Commissioner (concerned)	—Member	

[F. No.-46-5/2009-A. III]

R. S. JAYAL, Under Secy.